

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**फरवरी-मार्च, 2018 सत्र**  
**दैनिक कार्य सूची**  
**मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2018 (फाल्गुन 8, 1939)**  
**समय 11.00 बजे दिन.**

## 1. निधन का उल्लेख.

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) श्रीयुत् श्रीनिवास तिवारी, मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष,
- (2) श्री सुरेश सेठ, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (3) श्री पूरन सिंह बेड़िया, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (4) श्री तातूलाल अहिरवार, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (5) श्रीमती केशर बाई डामर, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (6) श्री रघुनाथ झा, पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री,
- (7) डॉ. बोल्ला बुल्ली रमैया, पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री,
- (8) श्री भरत नारायण श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सचिव, एवं
- (9) जम्मू-कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई गोलीबारी में शहीद जवान.

## 2. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना.

श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेश पटल पर रखेंगे –

- (क) मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 1 सन् 2018),
- (ख) मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 2 सन् 2018); तथा
- (ग) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 3 सन् 2018).

## 4. नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों की प्रश्नोत्तरी तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

## 5. नियम 267 - क के अधीन नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

## 6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

## 7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) सर्वश्री शैलेन्द्र पटेल, बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, प्रदेश में गेहूं की खरीदी शीघ्र प्रारंभ न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य, उज्जैन-जावरा बी.ओ.टी. सड़क मार्ग के किनारे नाली का निर्माण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

## 8. सभापति तालिका की घोषणा.

**भोपाल :**  
**दिनांक : 26 फरवरी, 2018**

**ए. पी. सिंह**  
**प्रमुख सचिव,**  
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**